

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2015—फाल्गुन 8, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2015 ( फाल्गुन 8, 1936 )

क्र. 5127-वि.स.-विधान-2015.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 26 फरवरी, 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 26 फरवरी, 2015

राम नरेश यादव  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

भगवान्देव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.